

श्री रामपाल सिंह
भारतीय जनता पार्टी
निर्वाचन क्षेत्र - सिलवानी



श्री रामपाल सिंह
माननीय मंत्री, विधि और
विधायी कार्य विभाग,

पिता का नाम - स्व. श्री जुझार सिंह
जन्म तिथि - 04 जनवरी, 1956
जन्म स्थान - उदयपुरा, जिला रायसेन
शैक्षणिक योग्यता - बी.ए., एल.एल.बी.
व्यवसाय - कृषि
अभिरूचि - समाज सेवा, ग्रामीण विकास, राजनीति
स्थायी पता - उदयपुरा, जिला रायसेन
स्थानीय पता - सी-15, शिवाजी नगर, भोपाल

सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन का संक्षिप्त विकास क्रम -

श्री रामपाल सिंह के सार्वजनिक जीवन की शुरुआत वर्ष 1980-81 में छात्र राजनीति से हुई। आप वर्ष 1980-81 में शासकीय महाविद्यालय बरेली के छात्र संघ के अध्यक्ष तथा भोपाल विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी के सदस्य रहे। श्री सिंह भारतीय जनता युवा मोर्चा-रायसेन के उपाध्यक्ष तथा प्रदेश कार्यकारिणी के विशेष आमंत्रित सदस्य भी रहे हैं। वे पहली बार वर्ष 1990 में 9 वीं विधानसभा, 1993 में 10 वीं विधानसभा, सन 1998 में 11 वीं विधानसभा और वर्ष 2003 में चौथी बार 12 वीं विधानसभा के लिए उदयपुरा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। 10वीं विधानसभा में वे याचिका, सार्वजनिक उपक्रम समिति तथा ऊर्जा विभाग की परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे।

श्री रामपाल सिंह ने वर्ष 2003 में फ्रांस, हार्लैंड, आस्ट्रिया सहित पांच देश की अध्ययन यात्राएं की। आप जिला भाजपा अध्यक्ष, रायसेन तथा भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री भी रहे।

श्री रामपाल सिंह को 27 अगस्त 2004 को मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर के मंत्रिमंडल में राज्यमंत्री के रूप में शामिल किया गया।

श्री रामपाल सिंह को 04 दिसम्बर 2005 को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में शामिल किया।

श्री रामपाल सिंह दिसम्बर 2013 में 14वीं विधानसभा के लिये सिलवानी विधानसभा क्षेत्र से सदस्य चुने गये। उन्होंने 21 दिसम्बर, 2013 को केबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली।।